



निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 41 पटना, बुधवार, 20 आश्विन 1938 (श0)
12 अक्तूबर 2016 (ई0)

| विषय-सूची | | पृष्ठ |
|--|--------|-------|
| भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। | 2-4 | |
| भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। | --- | |
| भाग-1-ख—मैट्रिकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | --- | |
| भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि | --- | |
| भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। | 5-8 | |
| भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। | --- | |
| भाग-4—बिहार अधिनियम | --- | |
| भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- | |
| भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। | --- | |
| भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- | |
| भाग-9—विज्ञापन | --- | |
| भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं | --- | |
| भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। | | 9-10 |
| | पूरक | --- |
| | पूरक-क | 11-13 |

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
20 सितम्बर 2016

सं० 3/सी०-01-18/2007 गृ०आ०-7550—विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना एवं मुजफ्फरपुर में कार्यरत निम्नलिखित वरीय वैज्ञानिक सहायकों (अराजपत्रित) को वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (राजपत्रित) वेतनमान पी०बी०-2-9300-34800/- ग्रेड पे०-4600/- के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए इन्हें अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए इन्हें अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न प्रशाखाओं में पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र० | नाम | वर्तमान प्रशाखा एवं पदस्थापन | प्रोन्नति का पद एवं पदस्थापन |
|------|---|---------------------------------|--|
| 1. | श्रीमती रेखा कुमारी, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | सामान्य रसायन प्रशाखा, पटना। | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, सामान्य रसायन प्रशाखा, पटना |
| 2. | श्री अनील कुमार, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | विष विज्ञान प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, विष विज्ञान प्रशाखा, पटना |
| 3 | श्री विनय कुमार, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना |
| 4 | श्री नयन ओझा, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना |
| 5. | श्रीमती हिरण वाला सिन्हा, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना |
| 6. | श्री राम प्रपन्न ओझा, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, फोटो प्रशाखा, पटना |
| 7. | श्री सुनील कुमार सिंह, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | भौतिकी प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, भौतिकी प्रशाखा, मुजफ्फरपुर |
| 8. | श्री विनोद कुमार पाल, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, भौतिक प्रशाखा, पटना |
| 9. | श्री विजय कुमार, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | जीव विज्ञान प्रशाखा, मुजफ्फरपुर | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, जीव विज्ञान प्रशाखा, मुजफ्फरपुर |
| 10. | श्री अवनिकान्त त्रिवेदी, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | जीव विज्ञान प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, जीव विज्ञान प्रशाखा, पटना |
| 11. | श्री अजय कुमार, वरीय वैज्ञानिक सहायक। | सीरम प्रशाखा, पटना | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, सीरम प्रशाखा, पटना |

2. सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके योगदान की तिथि से ही प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ दिया जायेगा।

3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) सं०-29770/2015—बिहार सरकार बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

4. प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
4 अक्टूबर 2016

सं० 6/गो0-34-5/2016-3788/वा0कर—डा० मोहनाथ मिश्रा, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, समेकित जॉच चौकी डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

डा० मिश्रा द्वारा स्थानान्तरण हेतु अभ्यावेदन दिया गया था अतः श्री मिश्रा को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3789/वा0कर—श्री अयोध्या पासवान, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (अपील) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3790/वा0कर—श्री विपिन कुमार सिंह, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, समेकित जांच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3791/वा0कर—श्री अशोक कुमार शर्मा, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (प्रशासन) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3792/वा0कर—श्री विनोद कुमार, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3793/वा0कर—श्री शंभू कुमार सिंह, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (प्रशासन) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3794/वा0कर—श्री शंकर कुमार मिश्र, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वसूली कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (प्रशासन) पटना प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3795/वा0कर—श्री ज्योतिन्द्र कुमार, वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, पटना पश्चिमी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3796/वा0कर—श्री योगेन्द्र प्रसाद, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3797/वा0कर—श्री कैसर तौहिद, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3798/वा0कर—श्री अनिल कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल, छपरा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3799/वा0कर—श्री गोपाल प्रसाद, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-5/2016-3800/वा0कर—श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, दरभंगा अंचल, दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

30 सितम्बर 2016

सं० 05/स्था०(डी०टी०ओ०)—30/2013-5917/परि०—परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—3103 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का स्थानांतरण अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक—1650 दिनांक 09.09.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद का प्रभार सौंपने के लिए श्री उदय कुमार सिंह, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद सहित कुल 2 (दो) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है।

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गई 2 (दो) पदाधिकारियों की सूची में से श्री उदय कुमार सिंह, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा—3(तीन) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

2. परिवहन विभाग की उपरोक्त अधिसूचना संख्या—3103 दिनांक 30.06.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर स्थानांतरित श्री ब्रजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के स्थानांतरण को स्थगित किया जाता है।

3. स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

30 सितम्बर 2016

सं० 05/स्था०(डी०टी०ओ०)—30/2013-5918/परि०—परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—4708 दिनांक 21.09.2016 द्वारा श्री आलोक कुमार, बि०प्र०से०, वरीय उप समाहर्ता, लखीसराय को जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार सुपुर्द किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री कुमार का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक—447 दिनांक 20.08.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय का प्रभार सौंपने के लिए श्री राजेश कुमार, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय सहित कुल 3 (तीन) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है।

जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उपलब्ध करायी गई 3 पदाधिकारियों की सूची में से श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा—3(तीन) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2016

सं० ई२—02—36/2010— 39—श्री प्रशांत शेखर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु०), निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 30.06.2016 से दिनांक 14.07.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम—227, 240 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
संयुक्त सचिव—सह—संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 30—571+50—डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

5 अक्टूबर 2016

सं० 6/गो0-34-5/2016-3801—विभागीय अधिसूचना संख्या-6/गो0-34-5/2016-3794 दिनांक 04.10.2016 में अंकित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पटना प्रमंडल, पटना के स्थान पर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत् रहेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

कार्यालय आदेश

24 अगस्त 2016

सं० 1430—श्री लालमोहन कुमार, पिता-स्व0 नन्हकु पासवान (आदेशपाल ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया) ग्राम-रानी बिगहा, पो0-उतरैन, थाना-टिकारी जिला-गया को जिला अनुकंपा समिति, गया की बैठक दिनांक 29.07.2016 की कार्यवाही-सह-पठित ज्ञापांक-1222/स्था गया, कार्यवाही के क्रमांक संख्या-21 के द्वारा चतुर्थ वर्ग में चयन के उपरान्त उक्त आदेश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया में कार्यालय परिचारी के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन बैंड-5200-20,200 ग्रेड पे0-1800 में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों सहित अनुकंपा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी/औपबंधिक है एवं उच्चाधिकारी की संपूर्ष्टि नहीं प्राप्त होने पर या किसी प्रकार के विवाद होने पर बगैर कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. श्री लालमोहन कुमार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात पिता-स्व0 नन्हकु पासवान (आदेशपाल ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया) (मृत सरकारी सेवक) के आश्रित परिवार/आश्रितों के भरण-पोषण का पूर्णतः दायित्व होगा।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

6. औपबंधिक पदधारक द्वारा समर्पित किये गये किसी सूचना/कागजात में त्रुटि पाये जाने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी, अथवा एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए बर्खास्त कर दिया जायेगा।

7. योगदान के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. योगदान के पश्चात अंशदान की कटौती नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत की जायेगी।

9. पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2016

सं० एसीस-01/नि०-81/2011-682—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा-87 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, सदाकत आश्रम, पटना-800010 के कार्यरत कर्मियों को दिनांक 08.09.16 से दिनांक 07.09.17 (एक वर्ष) तक उक्त अधिनियम में निहित संगत प्रावधानों के प्रवर्तन से विमुक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2016

बिहार कला पुरस्कार

सं० 2/य.1-14/2007 (खण्ड) 22—सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु चाक्षुष एवं प्रदर्श कला की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देनेवाले निम्नांकित कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार एवं सम्मान के लिए चयनित किया जाता है:-

(1) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए-

| (क) चाक्षुष कला के क्षेत्र में | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|
| क्र० | पुरस्कार का नाम | वर्ग | चयनित कलाकार का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | राधा मोहन पुरस्कार (समकालीन आर्ट फोटोग्राफी कला) | वरिष्ठ | श्री शैलेन्द्र कुमार, फ्लैट नं०-ए/202, पो०-बी.भी. कॉलेज, शेखपुरा, पटना- 800015, मो०- 9431412655, 9572065566 |
| | | युवा | श्री इन्द्रदेव कुमार भारती, राजकुमार नगर, रोड नं०-24, दण्डीबाग रोड पो०-चांदचौरा(गया)-823001, मो- 9934107165 |
| 2. | कुमुद शर्मा पुरस्कार-समकालीन कला के क्षेत्र में (महिला कलाकार) | वरिष्ठ | सुनिता गुप्ता (डिन्डा) ग्राम-अमनौर सोनारपट्टी, पो०- अमनौर, जिला- छपरा, मो०-9122395133 |
| | | युवा | नेहा नुपूर, शारदा 107, एम.आई.जी.एच. कंकड़बाग कॉलोनी, पटना-20, मो०-8986364983 |
| 3. | सीता देवी पुरस्कार (लोक कला) | वरिष्ठ | श्री मनोज कुमार पंडित, मो०-मोहदीनगर, पो०-मिरजानहाट थाना -मोजाहिदपुर, प्रखंड- जगदीशपुर, जिला -भागलपुर- 812003, मो०-9263792023 |
| | | युवा | साधना देवी, श्री जितेन्द्र राम, केन्द्रीय विद्यालय, दानापुर कैन्ट कैम्पस, जिला-पटना मो०-8521487890 |
| 4. | दिनकर पुरस्कार (चाक्षुष कला लेखन) | वरिष्ठ | रिक्त |
| | | युवा | श्री राकेश लाल बिहारी, पिता-बांके लाल बिहारी, ग्राम- महुआ सिंहराय, पो०+थाना-महुआ, जिला-वैशाली, बिहार- 844122, मो०-9955678199 |
| (ख) प्रदर्श कला के क्षेत्र में | | | |
| 1. | पं० रामचतुर मल्लिक पुरस्कार (शास्त्रीय गायन) | वरिष्ठ | पं० रघुवीर मल्लिक, हरेराम सदन, वाचस्पितनगर, संदलपुर, महेन्द्र, पटना, मो०-8409097491 |
| | | युवा | कुमारी अभिलाषा, पिता-संजीव प्रसाद, मकान सं०-6, रोड नं०-5, एस०के० नगर, पटना-1, मो-7277160732 |
| 2. | भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच) | वरिष्ठ | श्री नीलेश्वर मिश्र (नीलेश) मु०-सालिमपुर अहरा, गली नं०-1, पो-कदमकुआँ-03, मो-9801392020 |
| | | युवा | श्री बिजेन्द्र कुमार टाक बिरजू, पिता-धीर सिंह बाल्मिकी, 1/1, नन्दनगर कॉलोनी, सैदपुर, पटना-16, मो०-983549882 |
| 3. | विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार (लोक गायन) | वरिष्ठ | श्री भरत सिंह 'भारती' पिता-स्व० सत्यनारायण सिंह ग्राम-नोनउर, पो०-करवासीन, जिला- भोजपुर, मो-9973599770 |
| | | युवा | मिन्दु रानी, ग्राम+पो०-रहिमपुर, थाना+जिला- वैशाली, मो०-9525229082 |

| क्र० | पुरस्कार का नाम | वर्ग | चयनित कलाकार का नाम |
|--|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला लेखन) | वरिष्ठ | शाह हसन इमाम, 403 सी.1, फरहान, इंकलेव, आशियाना रोड, समनपुरा, राजाबाजार, पटना-14, मो0-9308614272 |
| | | युवा | श्री मृत्युंजय शर्मा, द्वारा-माध्यमिक शिक्षक प्रेस, जमाल रोड, पटना-1 मो0- 9334442401 |
| 5. | विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य वादन) | वरिष्ठ | श्री अर्जुन कुमार चौधरी, अशोक नगर रोड नं0-9 कंकड़बाग, पटना-20, मो0-9334144645 |
| | | युवा | श्री नन्दन कुमार ठाकुर पिता-बिजय कुमार ठाकुर, डी-9, फेज-1, आकाशवाणी कॉलोनी, छज्जुबाग, पटना-1, मो0- 9934029110 |
| 6. | अम्बपाली पुरस्कार (शास्त्रीय नृत्य/ लोकनृत्य) | वरिष्ठ | श्रीमती सोमा चक्रवर्ती, फ्लैट नं0-303, चंद्रम अपार्टमेंट, जगत नारायण रोड, पटना-3, मो0- 9934907083 |
| | | युवा | श्री राजीव रंजन, पिता-स्व0 राजेन्द्र प्रसाद पासवान, शिवपुरी चौक नहर पर, देवी स्थान, अनिसाबाद, पटना-2, मो0- 9608222917 |
| (ग) प्रदर्श कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान | | | पं0 प्रेम कुमार मल्लिक, 22/9ए/1ए, एम0एज0 हसन मार्ग, 12 कटरा रोड, इलाहाबाद-211002 मो0-9415634281 |
| (घ) चाक्षुष कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान | | | श्री विवान सुन्दरम्, दिल्ली, मो0-09810277897 |
| (ङ) लाईफ टाईम एचीवमेंट सम्मान | | प्रदर्श कला | डॉ0 शंकर प्रसाद, 306, महादेवी एपार्टमेंट, काशीनाथ लेन, पूर्वी लोहानीपुर, कदमकुआ, पटना, मो0- 9835056266 |
| | | चाक्षुष कला | श्री जय नारायण सिंह, (मूर्तिकार) सिल्पालय, 90 फीट रोड, तारा अपार्टमेंट के बगल में कॉटिल्या नगर पटना-23, मो0-9334128234 |

(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए -

| (क) चाक्षुष कला के क्षेत्र में | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|
| क्र० | पुरस्कार का नाम | वर्ग | चयनित कलाकार का नाम |
| 1. | राधा मोहन पुरस्कार (समकालीन आर्ट फोटोग्राफी कला) | वरिष्ठ | श्री बिनोद कुमार, सरयू कुंज, एस.बी.आई. ए.टी.एम. के बगल में गैस गोदाम, बाजार समिति रोड, राजेन्द्र नगर, पटना-16, मो0- 9431812321, 9431426896 |
| | | युवा | मो0 सुलेमान, अम्बेदकर नगर, वार्ड नं0-06, पो0-दलसिंहसराय, समस्तीपुर- 848114 बिहार, मो0-9798866566 |
| 2. | कुमुद शर्मा पुरस्कार-समकालीन कला के क्षेत्र में (महिला कलाकार) | वरिष्ठ | श्रीमती राखी कुमारी, सहायक प्राध्यापक, पटना आर्ट कॉलेज, पटना, मो0-9234889914 |
| | | युवा | सुश्री ममता केसरी, राजु मेडिकल हॉल, मेन रोड, बीबीगंज, दानापुर कैन्ट, पटना-801503, मो0- 9693827269 |
| 3. | सीता देवी पुरस्कार (लोक कला) | वरिष्ठ | शिल्पी रामचन्द्र राम, ग्राम-चांदपुर, (धमौन), पो0-हसनपुर गुर्दा, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर -844506, मो0-9631338422 |
| | | युवा | ज्योति सिन्हा, पिता-श्री विरेन्द्र कुमार लाल, ग्राम+पो0-चंगेल, थाना-कटरा, जिला- मुजफ्फरपुर-883360, मो0-9525233323 |
| 4. | दिनकर पुरस्कार (चाक्षुष कला लेखन) | वरिष्ठ | रिक्त |
| | | युवा | रिक्त |
| (ख) प्रदर्श कला के क्षेत्र में | | | |
| 1. | पं0 रामचतुर मल्लिक पुरस्कार (शास्त्रीय गायन) | वरिष्ठ | श्री राजीव सिन्हा, 78/40, आफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना, मो0-9431860606 |
| | | युवा | रिक्त |
| 2. | भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच) | वरिष्ठ | श्री विश्वजीत कुमार सिंह, टी0एन0 सिंह कॉलोनी, रामनगर, पो0-पोलिटेक्निक, जिला-पूर्णिया, बिहार- 854303, मो0-7549250976 |
| | | युवा | उज्ज्वला गांगुली, बिहार आर्ट थियेटर, कालीदास रंगालय, दक्षिण पूर्वी गांधी मैदान, पटना-800004, मो0- 9835256010 |

| क्र० | पुरस्कार का नाम | वर्ग | चयनित कलाकार का नाम |
|--|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार (लोक गायन) | वरिष्ठ | श्रीमती रेखा झा, मकान सं०-75, रोड नं०-14 बी. पूर्वी अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना-800020, मो०-9308479113 |
| | | युवा | श्री रामकृष्ण सिंह, द्वारा स्व० रामअवतार सिंह, अवकाश प्राप्त आरक्षी उपाधीक्षक, गोलघर, गंगा किनारे, पटना-800001, मो०सं०-9835046750 |
| 4. | रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला लेखन) | वरिष्ठ | रिक्त |
| | | युवा | रिक्त |
| 5. | विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य वादन) | वरिष्ठ | श्री राजकुमार मांझी, पिता-बुधन मांझी, ग्राम-छोटपुर, पो०-जिराय, थाना-जिला-सीवान, मो०सं०-9771995561 |
| | | युवा | ऋचा कुमारी, पिता-श्री कृष्णा जी राय, ग्राम-कोन्हवां मोड़, पो०-पसरमा, जिला-गोपालगंज-841428, मो०सं०-8969096253 |
| 6. | अम्बपाली पुरस्कार (शास्त्रीय नृत्य/ लोकनृत्य) | वरिष्ठ | श्रीमती तमाल पात्रा, पति-श्री निरंजन बिस्वाल, पो०-पंडुआ भाया-राहमा, जिला- जगतसिंहपुर, ओडिसा- 754140, मो०-09386344981 |
| | | युवा | श्री विजय कुमार मिश्रा, राजेन्द्र नगर, रोड नं०-2, पो०+ थाना-कदमकुआ, पटना-800016, मो०सं०-9835829441 |
| (ग) प्रदर्श कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान | | | श्री सी०एल० दास, लोहानीपुर, पटना, |
| (घ) चाक्षुष कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान | | | श्री हिम्मत शाह (मूर्तिकला), जयपुर (राजस्थान) |
| (ङ) लाईफ टाईम एचीवमेंट सम्मान | | प्रदर्श कला | डॉ० नागेन्द्र प्रसाद मोहिनी (शास्त्रीय नृत्य कथक) 35, नेहरु पंजाबी कॉलोनी, चितकोहरा, अनिसाबाद, पटना-800002, मो०-9955432492 |
| | | चाक्षुष कला | बाबा दाय, (माली कला) ग्राम+पो०-श्रीपुर, अंचल-भवानीपुर, जिला- पूर्णियाँ, मो०सं०-9572858504 |

उक्त दोनों वित्तीय वर्ष के लिए चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटों, प्रमाण-पत्र, अंगवस्त्र आदि प्रदान किये जायेंगे। वरिष्ठ एवं युवा पुरस्कार के लिए राशि क्रमशः ₹ 51,000/- (एकान्व हजार), ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये निर्धारित है तथा सभी सम्मानों हेतु सम्मान राशि प्रति कलाकार ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार झा, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 30—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1166—I, **PARUL** D/O Awadh kumar , R/O Kali Asthan, PO Begampur, PS Chowk dist. Patna vide Affidavit no 4857 Dated 15.07.16 shall be known as **PARUL ROY** for all future purposes.

PARUL.

सं० 1167—मैं, पारुल कुमारी, पिता—रमेश प्रसाद, निवास बिहारी कुंज, मखनिया कुआँ पटना शपथ पत्र सं० 915 दिनांक 16.12.15 से मैं पारुल प्रसाद के नाम से जानी जाऊंगी।

पारुल कुमारी।

No. 1167—I, **PARUL KUMARI** D.o Late Ramesh Parsad R/o Bihari Kunj Makhanina Kuan, Patna Vide Affidavit no. 915 Dated 16.12.15 Shall be known as Parul Prasad.

PARUL KUMARI.

सं० 1168—मैं शिवशंकर प्रसाद, सुपुत्र श्री दिनेश कुमार सिन्हा, निवासी दक्षिणी अशोक नगर रोड नंबर 8ए कंकरबाग पटना घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र संख्या 16021 दिनांक 08.09.2016 द्वारा मैंने अपने पुत्र शिवम् के नाम में टाइटल “सिन्हा” जुड़ाया है अब से शिवम्, “शिवम् सिन्हा” के नाम से जाना जायेगा।

शिवशंकर प्रसाद।

No. 1168—I, **SHIV SHANKAR PRASAD**, S/O Shri Dinesh Kumar Sinha, R/O South Ashok Nagar, Road No.8A, Kankarbagh, Patna-800020 declare that vide Affidavit No. 16021 dated 08.09.2016, title “**Sinha**” has been added in my son name Shivam, now onwards my Son “**SHIVAM**” shall be known as “**SHIVAM SINHA**”.

SHIV SHANKAR PRASAD.

No. 1169—I, **VIKSIT JAIPURIYAR** , S/O VINAY KUMAR R/o. C/O Late Bharat Pd. Sinha , NANDINI, West Lane of Shakti Shiv Mandir, Kadamkuan , Patna-800003, DOB-26.10.1988 declare that , I have changed my name from Viksit to **VIKSIT JAIPURIYAR** Vide Affidavit no. 0813 Dated 07.09.2016.

VIKSIT JAIPURIYAR.

सं० 1170—मैं, पुजा पति श्री आशीष रंजन, पूनम निवास A/11A प्रणामी पथ, गाँधी नगर एस०के० पुरी पटना—1 अब शपथ पत्र सं० 2129, दिनांक 04.07.16 के अनुसार सभी कार्यों के लिए पुजा सिंह के नाम से जानी जाऊँगी।

पुजा।

No. 1171—I, **RASHMIKAR** S/O Awadh kumar ,R/O Kali Asthan, PO Begampur, PS Chowk Dist. Patna vide affidavit no 4856 Dated 15.07.16 shall be known as **RASHMIKAR ROY** for all purposes.

RASHMIKAR.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 30—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर 2016

सं० 3/अ0प्र0-1-116/2009/2703—श्री बिन्दु कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज— सह— सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, बेतिया को उनके पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2002 से 2007 तक विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने, सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं करने, राशि का गबन करने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसे आरोपों के लिए अधिसूचना संख्या 614—सह पठित—ज्ञापांक 615 दिनांक 20.01.2011 द्वारा निलंबित करते हुए श्री कुमार का मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक 2865 अनु० दिनांक 07.03.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत श्री राम प्रवेश कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख के सचिव, प्रावैधिक, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त मामले में शिकारपुर थाना कांड सं० 43/08 दिनांक 21.02.2008 दर्ज होने के उपरांत श्री कुमार बिना किसी सूचना के दिनांक 01.03.2008 से फरार हो गये। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में न तो योगदान दिया गया और न ही वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। आरोपित पदाधिकारी को विभागीय पत्रों एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी निर्धारित मुख्यालय में योगदान देने एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

3. कालांतर में श्री राम प्रवेश कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख के सचिव, प्रावैधिक—सह—संचालन पदाधिकारी का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश सं० 100—सह पठित—ज्ञापांक 5780 दिनांक 27.03.2012 द्वारा श्री चन्द्रशेखर साहू, अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री कुमार द्वारा अबतक निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य अंकित नहीं रहने के आलोक में संचालन पदाधिकारी को श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करने का अनुरोध किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर भी कि आरोपित पदाधिकारी को बार—बार सूचित किये जाने के बावजूद उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए, गठित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए श्री कुमार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई करने की अनुशंसा की गयी।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार लगातार पाँच वर्षों से फरार/अनुपस्थित है। विभाग द्वारा श्री कुमार को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय (निर्धारित मुख्यालय) में योगदान देने हेतु सूचित किया गया।

6. श्री कुमार के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके अधिवक्ता के माध्यम से विभागीय पत्रांक 4293 दिनांक 25.11.2014 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में क्यों नहीं

उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाय। परंतु श्री कुमार द्वारा कोई स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया और न ही वे उपस्थित हुये।

7. CWJC संख्या 779/2014 (बिन्दु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 17.03.2015 को विभाग में योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

8. श्री कुमार द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक 3179 अनु० दिनांक 08.09.2015 द्वारा श्री कुमार से विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

9. श्री कुमार के विरुद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 2040 अनु० दिनांक 11.06.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1034 दिनांक 10.07.2015 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन की आवश्यकता बतायी गयी। श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया जिसकी प्रति विभागीय पत्रांक 1524 अनु० दिनांक 04.05.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी।

10. श्री कुमार के पत्रांक 110 दिनांक 10.02.2016 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसकी विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध शास्ति अधिरोपन के बिन्दु पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1274 लो० से० आ० दिनांक 25.07.2016 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध उक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

12. तत्पश्चात विभागीय ज्ञापक-2652 दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री बिन्दु कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज-सह-सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, बेतिया, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलेख मंत्रिपरिषद को प्रेषित किया गया।

13. मंत्रिपरिषद की दिनांक 30.08.2016 को आहूत बैठक में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

14. अतएव उक्त आलोक में श्री बिन्दु कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज-सह-सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, बेतिया, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार झा, अपर सचिव।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)-01-01/2015-6184

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

संकल्प

5 अक्टूबर 2016

चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, रोसड़ा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई के विरुद्ध उनके उपकारा, रोसड़ा में पदस्थापन काल में विपत्र संख्या-113/11-12 से संबंधित सभी 09 अभिश्रवों का विधिवत् संधारण नहीं करने एवं सरकारी राशि का नियमानुकूल व्यय नहीं किये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

श्री कुमार का यह कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता, कदाचार एवं सरकारी निर्देशों के उल्लंघन का द्योतक है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, रोसड़ा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, मुँगेर प्रमंडल, मुँगेर को संचालन पदाधिकारी तथा वृत्ताधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
 5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।
 6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।
- आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 30—571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>